SUDEV INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: B1/26, Sector-18, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301 CIN No.: L25201UP1992PLC018150, Tel. No.: 08447772518

Website: www.sudev.co.in, E-mail: info@sudev.co.in

Date: 17th May, 2022

To,
The Manager
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 25, P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai- 400001

Subject: Results of Board Meeting - Newspaper Publication

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), we are enclosing the Newspaper Publication of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022 and Forfeiture of 14,25,125 Partly Paid Shares of amount Rs. 71,25,625.00, at its Board Meeting held on 16th May, 2022.

The Exchange is now informed that Audited Financial Results and Public Notice for Forfeiture of Shares to this effect has been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) on 17.05.2022, scan copy of which is attached.

This is in compliance of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is for your information and records. Thanking you,

Director/Authorised Signatory

Yours faithfully,

For Sudey Industries Limited For Sudey Industries Limited

Shruti Jain

(Compliance officer)

DEMAND NOTICE

said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferre under Séction 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Name of the Borrower(s)/Guarantor (s) | Demand Notice Date & Amount | Description of secured asset (immovable property) Mr. Shyam Singh, Mr. Kripal Singh, Mrs. 12-May-2022, Rs. 16,21,979/-(Rupees all that piece and parcel of the property being: Plot No-13/1 Lalita Devi, Shyam Packaging, Mr. Sunil Sixteen Lakh Twenty One Thousand Area Admeasuring 55 Sq. Yards, Out of Kh No-870 Raibagh Kumar, (Prospect No. 826210) Nine Hundred Seventy Nine Only) Vill-Pasonda Ghaziabad, 201005, Uttar Pradesh, India Mr. Rinku Sharma, Mr. Amit Kumar Sharma 12-May-2022,

Mrs. Anuradha Sharma, Mr. Jonny Sharma Rs. 21,22,990.00/-Mrs. Poonam Sharma, Reenusharma Enterprises, Rupees Twenty One Lakh Mrs. Renu Ojha, Mrs. Savitri Banwari, Mr Twenty Two Thousand Nine Hundred Ninety Only) Banvari Shree Dayal, (Prospect No. 828556) Mr. Pushpraj Dvivedi, Pandit Ji General Store, Rs. 19,29,170.00/-

all that piece and parcel of the property being : H.No.83, Admeasuring 111.31Sq.Mtrs.,Bake Indra Colony, Shahganj Lohamandi, Agra, 282010, Uttar Pradesh, India all that piece and parcel of the property being: Plot No-24,

Admeasuring-122.56 Sq. Mtrs., Khasara No-415 Situated (Rupees Nineteen Lakh Twenty At Village Rawali Mahdood Pargana Jwalapur Tehsil And District Haridwar Outside Nagar Nigam Area Haridwar, Nine Thousand One Hundred Rawali Mahdood, Haridwar, 249402, Uttarakhand, India f the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secure assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the

Borrowers, For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No.30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi/or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No.98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Seventy Only)

Place: Delhi, Date: 17-05-2022



Mrs. Shiv Devi,

(Prospect No. 853653)

•Regd. Office: 9, M. P. Nagar, 1st Street, Kongu Nagar Extn., Tirupur-641 607, Tamil Nadu. •Corporate Office: C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS Rd. & CST Rd. BKC Annexe, Nr. Equinox, Kurla (W), Mumbai-400070, Maharashtra. ASSETS RECONSTRUCTION PVI. Ltd. Tel. No. :- (022) 2654 4000, MH.

NOTICE TO BORROWERS UNDER SECTION 13 (2) READ WITH SECTION 13(13) OF SARFAESI ACT, 2002

• Having its Registered office at: 16-A, Uday Park, 230-E Masjid Moth New Delhi-110049 AND • Business office at: 18, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110 020 Through its Liquidator Mr. Subramanian Natarajan • Email: subrairp@gmail.com 2. Mr. Deepak Kapoor (Personal Guarantor &/or Legal Heir of Late Mr. Dharam Bir Kapoor) S/o. Late Sh. Dharam Bir Kapoor ◆Email: deepakmanorite@gmail.com

•All (i. e. Sr. No. 2 to 5) R/o. at: A3, Sector-56, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201 301.

3. Ms. Vandna Kapoor (Personal Guarantor) W/o. Mr. Deepak Kapoor **4. Mrs. Kamlesh Kapoor** (Personal Guarantor & / or Legal Heir of Late Mr. Dharam Bir Kapoor) W/o. Late Sh. Dharam Bir Kapoo 5. Mr. Ankur Kapoor (Personal Guarantor &/or Legal Heir of Late Mr. Dharam Bir Kapoor) S/o. Late Sh. Dharam Bir Kapoor

. Mrs. Arti Dhawan (Personal Guarantor &/or Legal Heir of Late Mr. Dharam Bir Kapoor) D/o. Late Sh. Dharam Bir Kapoor •R/o.: B-804, ELDECO Apartments, Sector 4, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201 010. •Also at: A3, Sector-56, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201 301. • Email: arti.3073@yahoo.com

Reg. : Demand Notice under section 13(2) read with section 13(13) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 in Loan Account M/s. Marketing Times Automobiles Pvt. Ltd. The Fullerton India Credit Company Limited was sanctioned a secured term loan facility of upto & not exceeding ₹ 5.60 Crores on 29th May 2013 to the Marketing Times Automobiles Private Limited through its director Sh. Deepak Kapoor (the Borrower) & its personal guarantors as detailed hereinafter. For securing the repayments along with stipulated interest thereon, various documents were executed / furnished by the captioned borrower & its guarantors. The facility was also secured by way of creating Mortgage by deposit of title deeds of the Secured Asset (whose description is given below in Schedule C) and execution of Memorandum of Deposit of title deeds dated 03.06.2016 by the Mortgagor / Personal Guarantor Mr. Dharam Bir Kapoor in

favour of the Fullerton India Credit Company Limited. Subsequent to the defaults made by the Borrower, The Fullerton India Credit Company Limited was declared its account as Non-Performing Asset (NPA) on 30.04.2018 in accordance with the Guidelines and Directions issued by Reserve Bank of India (RBI). Later on, Fullerton India Credit Company Limited has assigned the entire outstanding debt of Borrower and its Personal Guarantor(s); along with underlying securities interest in toto to Omkara Asset Reconstruction Pvt. Ltd. (OMKARA) having registered office at No. 9, M. P. Nagar First Street, Kongu Nagar Extension, Tirupur-641 607 and corporate office at: C/515, Kanakia Zillion, Junction of LBS and CST Road, BKC Annexe, Near Equinox, Kalina / Kurla (West), Mumbai-400 070) acting in its capacity as Trustee of OMKARA PS22/2020-21 Trust' vide Assignment Agreement dated 26th Feb., 2021 which was duly registered with the Sub Registrar, Andheri 6 on 15th April, 2021. Accordingly, Omkara ARC has stepped into the shoes of Fullerton India Credit Company Limited and become entitled to recover the entire outstanding debt and enforce the securities interest.

It is pertinent to note that the demand notice dated 22.06.2018 & 08.12.2020 issued by the assignor FICCL and actions pursuant to the said demand notice are hereby withdrawn by **OMKARA.**

The undersigned, being the authorized officer of OMKARA, appointed under the provisions of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) and the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Therefore, this demand notice is issued U/s. 13 (2) of the SARFAESI Act by the authorised officer of Omkara Assets Reconstruction Private Limited (acting in its capacity as trustee of Omkara PS 22/2020-21 Trust)

The relevant particulars of the credit facility are provided in Schedule A of the instant notice. Further, the relevant particulars of the security documents created from time to time are also provided in schedule B of this notice

That the Hon'ble National Company Law Tribunal, Court IV, New Delhi was passed an order on 25.11.2019 over an application CA 174/2019 filed by the Resolution Professional, for initiating liquidation proceedings against the borrower company & appointed Mr. Subramanian Natarajan, Registration No. IBBI/IPA-002/IP-N00698/2018-2019/12317, Email Id:- subrairp@gmail.com, Mobile No. 7503562701 as liquidator of the borrower company

The undersigned in exercise of the powers conferred under Section13(2) of the said Act hereby calls you all Noticee except Noticee No. 1 (due to the ongoing liquidation proceedings under Insolvency & Bankruptcy Code) by issuing this notice to discharge in full your outstanding liabilities in the aggregate as on 21st April 2022 to the tune of ₹ 6,68,86,798/- (Rs. Six Crores Sixty-Eight Lakhs Eighty-Six Thousand Seven Hundred Ninety-Eight only) along with interest as applicable from time to time in accordance with the facility agreements, along with interest @ 13.25 % & default interest @ 4% in addition to the normal interest till the date of actual realization. You are also liable to pay incidental expenses, costs, charges etc. under within 60 days from the date of this notice. Failing which further action shall be taken as per the provisions of section 13(4) of the said ACT to realize the same. You are also put to notice that in terms of sub-section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you all Noticee except Noticee

are further debarred from transfer by sale, lease or otherwise dispose, part with the possession of the secured assets referred to in this notice secured assets detailed in Schedule 'C' of this notice without obtaining prior written consent of Omkara Assets Reconstruction Private Limited. It is Further advised that non-compliance with the referred provision contained in section 13(13) of the said Act, is an offence punishable under section 29 read with section 33 of the said Act. This notice is without prejudice to initiate such other actions or legal proceedings by **OMKARA** as deems necessary under any

other applicable provisions of Law. 0. OMKARA reserves its right to call upon you all noticee 2 to 6 to repay the liabilities that may arise in future as other contingent

Since some of the notices issued on 29.04.2022 under Section 13(2) of the SARFAESI Act to the aforementioned noticee through

speed post / email have been returned undelivered, present notice is being published in the two newspapers out of which one is in vernacular language & further affixed on the outdoor of the building or house where borrower / guarantors are resides, in compliance of rule 3 sub rule 1 of The Security Interest (Enforcement) Rules to complete the service of the demand notice to all the noticee.

Ankur Rastogi, Authorised Officer Date: 17.05.2022 **Omkara Assets Reconstruction Private Limited** Place: Delhi NCR (Acting in its capacity as trustee of Omkara PS 22/2020-21 Trust) **SCHEDULE A**

Sr. No.		Outstanding Principal as on 21 st April 2022	Accrued Interest as on 21st April 2022	Default Interest as on 21st April 2022	Total Outstanding as on 21st April 2022
1	Nature of facility	₹ 3,98,59,325/-	₹ 2,39,27,831/-	₹ 30,99,142/-	₹ 6,68,86,798/-
	(Details of securi	ty documents including all	SCHEDULE B	s & documents evidencing	creation of mortgage)

Sr. No.	Name of the Document	Executed by	(INR) & Int. thereon
1	Facility Letter dated 29.05.2013	Noticee No. 1 to 6 & FICCL	₹ 5,60,00,000/-
2	Facility Agreement dated 30.05.2013	Noticee No. 1 Through its Director Deepak Kapoor & FICCL.	₹ 5,60,00,000/-
3	Demand Promissory Note dated 30.05.2013	Noticee No. 1 Through its director Deepak Kapoor	₹ 5,60,00,000/-
4	Personal Guarantee Agreement dated 30.05.2013	Noticee No. 2 to 6 & Mr. Dharam Bir Kapoor	₹ 5,60,00,000/-
5	Memorandum of Deposit of Title Deeds dated 03.06.2013	Mr. Dharam Bir Kapoor	₹ 5,60,00,000/-
6	Permission of Mortgage dated 30.05.2013 in favour of FICCL	Issued by NOIDA Authority	N/A
7	Power of Attorney dated 30.05.2013	Mr. Dharam Bir Kapoor	₹ 5,60,00,000/-
	SCHE	DULE C	

North: Park

> South: Plot No. A-4

Amt. Due as per

Secured Asset :- All that Piece and Parcel of Plot No. A3, admeasuring 472.50 sq. mts. & Construction thereon Situated at Block A, Sector-56, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh & bounded as under: -

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

> West: Other Property

Retaill Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.

Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006. Whereas the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act. in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the charged/ Mortgaged Properties	demand notice Date Demand notice Possession Date
	All such pieces or parcels of a diverted land/property	
Sh. Mohammad Shahid, Gulzar Fatma	admeasuring 94.06 Sq. mtr situated at H.No 10, village	as on 02.02.2022
Chauhan (Co-Borrower) W/o. Sh.	Partapur, Jeevan Sahai, Bareilly. UP-243001 Which in	+ interest &
Mohammad Shahid both R/o munshi	the name of Mohammad Zeeshan. Bounded as:	other expenses
Nagar, Near J.B.S. Gym Bypass Road,	East - Rasta 40ft Wide, West - House of Mohd Farid	02.02.2022
Pilibhit Bareilly UP- 243122	Salmi, North - Rasta 40ft wide, South - House of Miraz.	12.05.2022
Avdhesh Jaiswal (Borrower) S/o Sh. Babu Ram Jaiswal, Babu Ram Jaiswal (Co-Borrower) S/o Sh. Ramchandra both R/o Mohalla Kanoon Goyan, Faridpur, Near Tample, Bareilly (UP)- 243503	Property Admeasuring 84 Sq. Mtr. Situated at Village/mohalla Kanoon Goyan, Kasba Faridpur, Dist-bareilly In The Name Of Babu Ram S/o Sh. Ram Chandra. Bounded as: East - Home Munshilal, West - Home Ramsaran, North - Road, South - Road.	Rs. 21,61,397.19, 38,745.00 as on 11.02.2022 + interest & other expenses 14.02.2022 12.05.2 022
Natthu Lal (Borrower) S/o Sh. Kharagsen, Mohan Swaroop Verma (Co-Borrower) S/o Sh. Nathulal Verma, Meera Verma (Guarantor) W/o Sh. Hari Shankar Verma, Radha Verma (Guarantor) W/o Mohan Swaro op Verma all R/o H.no. 202, Moh. Civil Lines South, Pilibhit (UP.) 262001	property admeasuring 292.79 Sq. Mtr. Situated at Part Of Khasra No. 444/2 & 445, Mohalla- Mudia Panai Urf Sungarhi, Tehsil & Dist. Pilibhit In The Name Of Radha Verma W/o Sh. Mohan Swaroop Verma & Meera Verma W/o Sh. Hari Shankar Verma. Bounded as: East - Plot Of Seller, West - Road 3.6 Meter, North - Land Of Sharma Ji, South - Road 3.6 Meter.	Rs. 12,93,248.25, as on 11.02.2022 + interest & other expenses 14.02.2022 13.05.2 022
Date: 17.05.2022	Authorized Office	cer, Axis Bank Ltd.

KERALA WATER AUTHORITY e-Tender Notice

Tender No. 5/2022-23/PHC/KNR (Re-Tender). Deposit work-KIIFB-18-19-Improvements and providing BM & BC to Payyannur-Ambalathara-Kanayi-Maniyara Vayal-Mathamangalam road - KWA utility shifting - Replacing the existing transmission and distribution pipe lines of WSS to Payyannur Municipality. EMD: ₹2,00,000 Tender fee: ₹11,800. Last date for submitting tender: 30-05-2022, 02:00 pm

Ph: 0497 2705902. Website: www.kwa.kerala.gov.in, www.etenders.kerala.gov.in Superintending Engineer, PH Circle, Kannur KWA-JB-GL-6-207-2022-23

TITAN BIOTECH LIMITED CIN: L74999RJ1992PLC013387

25837 2564171-2564270

100

Regd. Off: A-902A, RIICO Industrial Area, Phase-III, Bhiwadi, Rajasthan-301019, Tel: 011-27674615 E-mail: hrd@titanbiotechltd.com | Website: www.titanbiotechltd.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES Notice is hereby given that the following share certificates of Titan Biotech Limited

0009809

Dilip Kumar

ssued by the Company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders thereof / claimant have applied to Company for issue of Duplicate Distinctive Nos. No. of Eq. Shares Name No.

7647000	Shaw	104XCXXXXXXXXXXXX	1000000000		0.00000
2.	Davinder Arora	0015961	8899 13865	870371- 870470 1366971-1367070	100 100
	uch claim(s) in	writing with t	the compa	espect of such Share Cer any within 15 days of Pu	blication of this

notice after which no claims will be entertained and the Registrar will proceed for ssuing Duplicate Certificates. For and on Behalf of

TITAN BIOTECH LIMITED Date: 16-05-2022 Charanjit Singh Place : Delhi Company Secretary

SYSTEMATIX SECURITIES LTD.

Sr.	Particulars		Quarter Ended		sees in Lakhs	Ended
Ño.	. Paruculais	March 31, 2022 (Audited)	Quarter Ended December 31, 2021 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2022 (Audited)	March31 2021 (Audited)
1	Total Income from operations	8.53	8.78	23.58	44.30	77.42
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & Exceptional items)	(3.03)	(0.28)	11.96	(2.85)	40,00
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax after Exceptional items)	(3.03)	(0.28)	11.96	(2.85)	40.00
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax And Exceptional items)	(1.98)	(0.35)	10.04	(2.13)	31.14
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	(1.98)	(0.35)	10.04	(2.13)	31.14
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/~ each)	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7	Other Equity (Reserves)	-	-		383.62	385.77
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted EPS	(0.04)	(0.01)	0.20	(0.04)	0.62

with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the company's website at (www.systematixsecurities.in).

For & on behalf of Board SYSTEMATIX SECURITIES LTD. Place: Chittorgarh Rajesh Kumar Inani Date: 16/05/2022 Director (DIN: 00410591)

PUBLIC NOTICE

S.No.

M/s. Vipul Limited ("the Company") having its Registered Office at Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, New Delhi-110017and Corporate Office at Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43 Gurugram-122009, Haryana, had made provisional allotment of Residential/Commercial Flats in the project namely Vipul Plaza Bhubaneswar, Orissa against the Eamest Money cum booking amount, and upon signing of Company's application forms containing terms and conditions of the allotment. As per the records maintained by the Company, the following Allottees have not paid their respective dues/installments/interest etc. as per the terms of the provisional allotment(s), despite several reminders / written communications and as a squel thereof, the provisional allotment o he referred unit(s) stands cancelled.

Applicant Name	Block	Unit	Address	Area (sq.f
MR. SASMITA SAHOO MR. RASHMI RANJAN SAMANTA RAY	С	109	C/O - M/S SAAR DRUGS LLP 178, 2ND FLOOR, RPS COLONY, M. B. ROAD, KHANPUR, NEW DELHI-110062	273
MR. SASMITA SAHOO MR. RASHMI RANJAN SAMANTA RAY	С	110	C/O- M/S SAAR DRUGS LLP 178, 2ND FLOOR, RPS COLONY, M.B. ROAD, KHANPUR, NEW DELHI-110062	273
_			For and on behalf o	f Vipul Limit

Sd/-Sunil Kumar Company Secretary

SUDEV INDUSTRIES LIMITED Registered Office: B1/26. Sector-18, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP- 201301 CIN No.:L25201UP1992PLC018150, Tel. No.: 8447772518

> Website: www.Sudev.co.in, E-mail: info@sudev.co.in **Public Notice for Forfeiture of Shares**

NOTICE IN RELATION TO FORFEITURE OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY, ON WHICH HOLDERS OF EQUITY SHARES HAVE FAILED TO PAY THE CALL MONEY PURSUANT TO THE FIRST AND FINAL CALL MONEY NOTICE DATED 1ST MARCH, 2022 AND FINAL DEMAND CUM FORFEITURE NOTICE DATED 4TH APRIL, 2022.

ISSUE OF 14.25.125 (FOURTEEN LAKHS TWENTY-FIVE THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY FIVE) PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF RS 10 EACH OF OUR COMPANY WHICH HAD BEEN ALLOTTED, AGAINST WHICH ONLY A SUM OF RS.5 PER SHARES AMUNUTING TO RS.71,25,625/ (RUPEES SEVENTY-ONE LAKHS TWENTY FIVE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY FIVE ONLY AT THE TIME OF APPLICATION / ALLOTMENT WAS RECEIVED BY THE COMPANY. FURTHER, THE REMAINING RS.5.00 (RUPEES FIVE ONLY) PER PARTLY PAID-UP EQUITY SHARE AMOUNTING TO RS. 71,25,625 (RUPEES SEVENTY-ONE LAKHS TWENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-FIVE ONLY) WAS REMAIN UNPAID.

PATMENT METHOD							
mount Payable Per Equity Shares e Issue Price	No of Shares	Face Value	Premium (Rs)	Total (Rs)			
n Application	14,25,125	5	0	71,25,625.00			
irst and Final Call	14,25,125	5	0	71,25,625.00			
otal	7			1,42,51,250.00			
a Poord of Directors of the Company in	thoir mooting b	old on 20th Eak	ruon, 2022 h	ad daoidad ta sand s			

The Board of Directors of the Company in their meeting held on 28th February 2022 had decided to send notice for the payment of the First and Final call money of Rs. 5.00 per partly paid-up Equity Share to the holders of such partly paid equity shares of the Company on which the First and Final call money remains unpaid. The Notice dated 1st March 2022, was sent to the all eligible shareholders of the company for the payment of first and final call money unpaid wherein the company had provided 30 days' time duration beginning from 2nd March 2022 to 31st March, 2022 for the payment of First and final call money Subsequently another opportunity was given to all such shareholders who have not paid the first and final call money, the Board of Directors of the Company in their meeting held on 1st April, 2022 had decided to send the Final demand cum forfeiture notice to all such shareholders from whom First and final call money was not received till March 31, 2022. Accordingly, the Final demand cum forfeiture notice dated 4thApril 2022 to all the eligible shareholders and 16 days period was given for the payment from 5th April 2022 to

Please be informed that Pursuant to Article 26 and other applicable Articles of Association of the Company the Board of directors of the company at their meeting held on 16th day of May, 2022 have forfeited 14,25,125 (Fourteen Lakhs Twenty Five Thousands One Hundred Twenty Five) equity shares of Rs.10/- each, of which a total sum of Rs. 71,25,625/- (Rupees Seventy- One Lakhs Twenty- Five Thousands Six Hundreds Twenty- Five Only) is still unpaid, particulars of which are mentioned herein

We further inform that pursuant to Article 30 of the Articles of Association of the Company notwithstanding the forfeiture, members will be liable to pay and shall forthwith pay to the Company, on demand all calls instalment, interest and expenses owing upon or in respect of such shares at the time of forfeiture together with interest thereon from the time of forfeiture until payment, as the board may determine and board may enforce the payment thereof if it think fit.

Members are advised that please do not transact on any partly paid up shares and return the same to the company for record. Company has also cancelled all such shares after forfeiture, if anybody transact in those forfeited shares, Company shall not be responsible to such transaction. List of shares Forfeited is available in the website of the Company i.e. www.sudev.co.in. By order of the Board

For Sudev Industries Limited Rajiv Agarwa

Whole Time Director DIN: 00929463

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Registered office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, Rajasthan(India) CIN L36911RJ1996PLC011381

Place: Uttar Pradesh

Date: 16.05.2022

APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] Sale notice for sale of immovable properties E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s)/ Co-Borrower (s)/Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described

immovable properties mortgaged to the Secured Creditor, the constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank), the same shall be referred herein after as AUSFB. The Secured Assets will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost, charges and expenses being due to AUSFB viz.

It is hereby informed you that we are going to conduct public E-Auction through website https://sarfaesi.auctiontiger.net

Loan A/c Number / Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors/Mortgagers	Date & Amount of 13(2) Demand Notice	Date of Posse- ssion	Description of Property	Reserve Price For Property	Earnest Money For Property	Date & Time of E-Auction	Date & Time of Bid Sub- mission	E-Auction Place of Tender Submission	Contact Person and property visit date
A/c No.: L9001060818526479 CASH BUILDERS THROUGH ITS PROPIERTOR RASHEED (Borrower), RASHEED S/O IKARAMOODIN (Co- Borrower), SMT. DILRUBA W/O RASHEED (Co- Borrower & Mortgagor)	29-Apr-21 Rs. 2716032/- Rs. Twenty Seven Lac Sixteen Thousand Thirty Two Only. As on 29-Apr-21	12-Apr- 22	Propeerty Situated At Plot No. 57, Kh. No. 678, Manish Park, Vill. Pavisadakpur, Prangana, Teshil Loni , Dist. Ghaziabad Admeasuring 150 Sq. YRD	Rs. 6500000/- Rs. Sixty Five Lac Only.	Rs. 325000/- Rs. Three Lac Twenty Five Thousan d Only.	22-Jun- 22 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 20-Jun- 22 10.00 AM to 5.00 PM	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address: -801 To 804, 8Th Floor, Roots Tower, Dist. Center Laxmi Nagar, Delhi- 110092	Bhanu Pratap Singh - 9358002663- Email Id- auctions@au bank.in Property visit date: 16-Jun-22
A/c No.: L9001061121518914 & L9001060114690662 CASH BUILDERS & RASHEED (Borrower), RASHEED S/O IKARAMOODIN (Co- Borrower), SMT. Dilruba S/O/W/O/Do MOHD YUSUF (Co-Borrower), SMT. DIL RUBA W/O RASHEED (Co-Borrower & Mortgagor)	10-Jul-21 Rs.618275/- Rs. Six Lac Eighteen Thousand Two Hundred Seventy Five Only. As on 07-Jul-21 & 23-Apr-21 Rs.1490196/- Rs. Fourteen Lac Ninety Thousand One Hundred Ninety Six Only. As on	12-Apr- 22	Property Situated At Kh No.531 Plot No- 16-A Village Pavi Sadak Pur Lonishiv Lok Park Ghaziabad Uttar Pradesh 201001 Admeasuring 100 SQ. YDS.	Rs. 1451000/- Rs. Fourteen Lac Fifty One Thousand Only.	Rs. 73000/- Rs. Seventy Three Thousan d Only.	22-Jun- 22 2.00 PM to 4.00 PM with unlimited extension of 5 minutes	On or Before 20-Jun- 22 10.00 AM to 5.00 PM	Au Small Finance Bank Ltd., Branch Address: -801 To 804, 8Th Floor, Roots Tower, Dist. Center Laxmi Nagar, Delhi- 110092	Bhanu Pratap Singh - 9358002663- Email Id- auctions@au bank.in Property visit date : 16-Jun-22

The terms and conditions of e-auction sale:-(1.) The E-Auction sale of Secured Asset is on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis for and on behalf of the Secured Creditor viz. AUSFB

and there is no known encumbrance which exists on the said property. (2.) For participating in online e-auction sale, Bid document, copies of PAN Card, Board Resolution in case of Company and photo ID, address proof are required to be submitted along with EMD, which is payable by way of RTGS/NEFT/DD in the name of MSME AUCTION POOL ACCOUNT OF AU Small Finance Bank Limited, Current account No.1921201121711599 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED Fifth and Sixth Floor Sunny Big Junction STC Khasra No. 64 to 67, Gram Sukhaipura New Atish Market Jaipur 302020, IFSC Code: AUBL0002011, Once an Online Bid is submitted, same cannot be withdrawn. Further any EMD submitted by bidder will be required to send the UTR/Ref no/DD No of the RTGS/NEFT/DD with a copy of cancelled cheque on the following email IDs i.e auctions@aubank.in (3.) All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://www.aubank.in/bank-auction for further details including Terms & Conditions, to take part in e-auction sale proceeding and also advised to contact Mr. Bhanu Pratap Singh, Contact Number 9358002663 and e-mail of auctions@aubank.in

/ interse bidding on the above-mentioned date. The property will be sold, if their outstanding dues are not repaid in full by the borrower in the given notice period. Place: Delhi Date: 16-05-2022 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Retaill Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.

	Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the charged/ Mortgaged Properties	demand not Date Demand I Possession I
	Pyare, Savitri Devi (Co-Borrower) W/o Ram	All Such Pieces Or Parcels Of A Diverted Residential Property Admeasuring 2175 Sq. Ft.	28,434.00
	Ganj, Ward No. 21, Near National Public	Situated at Plot No. 1772 At Gata No. 2701 Min at Chak No. 733, Vill- Chiuraha Mau Pakad,	+ interest
	273303, Usha Upadhyay (Co-Borrower) W/o	Tappa-haveli, Maharajganj In The Name Of Savitri Devi. Bounded as: East - House Of Ram Lal	17.02.202
	Tulsipur, Maharajganj (UP) 273303	Badai, West - Sekar Road, North - Bagh Malikaan, South - Plot Of Salma Khatun.	
	R/o-1. H.no. 132, Gandhi Nagar, Ward No. 6,	All such pieces or parcels of a diverted land/ property admeasuring area 40.51 sq mtr, situated	Rs. 1,04,78
	Maharajganj Uttar Pradesh- 273303, R/o-2. Bhavan 76 Gra, Jarar Post Sohna Tiwari		+ interest
	Maharajganj Uttar Pradesh-273302, Radhey Shyam (Co-Borrower) S/o Nandlal R/o-1 H.no.	Maharajganj UP in the name of KALAVATI DEVI.	07.07.202
ı	132, Gandhi Nagar, Ward No. 6, Maharajganj	Bounded as: East - Property of Rambati Devi,	

Nagar Palika Parishad, Maharajganj, Uttar South - Property of seller.

Tiwari Maharajganj Uttar Pradesh- 273302.

SUDEV INDUSTRIES LIMITED Registered Office: B1/26, Sector-18, NOIDA Gautam Buddha Nagar UP- 201301 CIN No.:L25201UP1992PLC018150, Tel. No.: 8447772518 Website: www.Sudev.co.in, E-mail: info@sudev.co.in Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2022

Quarter Quarter Financial Financial

		Quarter ended	Quarter ended	Year	Year
	Particulars			Ended	Ended
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
		Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations (net)	-	-89	-	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
3	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
4	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*	-	-	-	-
5	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
6	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
7	Total Comprehensive Income for the period	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
8	Equity Share Capital	350.074	350.074	350.074	350.074
9	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown				
	in the Balance Sheet of previous year)	-	-	(392.859)	(366.937)
10	Earning Per Share (of '10/- each)				
	Basic:	-	-	-	-
	Diluted:	(0.488)	(0.027)	(0.615)	(0.054)
No	ote: .The above is an extract of the details format of the Fi	nancial Resul	ts for Quarte	r and Year en	ded on 31st

2022 are available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's website By order of the Board (www.sudev.co.in). For Sudev Industries Limited

Place: Uttar Pradesh Date: 16th May, 2022

PERSONAL

I,Fahad S/o Ahad Siddiqui,R/o 2550.Bada Chaman Wara. Tilak Bazar, Khari Baoli, Delhi-110006, have changed my name to Fahad Siddigui.

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that my client SH Lakhmi chand duggal S/o J C Duggal R/o D-181 sec-51 noida (u.p) have severed all their relations with their son Jaswant duggal (jatin) due to his bad habits. My above named client has also disowned and debarred his said son from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with Mr.Jaswant duggal will do so at his/her/their own risk and responsibilities and my clients will not be responsible for any act, deed or dealing done by Mr Jaswant duggal. Praveen Rastogi (Advocate

Enrol No-D/244/06

PUBLIC NOTICE I Shubhankar S/o Mr. Ved Prakash R/o 11-D

Pocket D-1 D.D.A flat, Mayur Vihar Phase-3, Kondli, Delhi, East Delhi-110096 have changed my name to Shubhankar prakash nath permanently

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Form No. INC-26 (Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR,

NORTHERN REGION, NEW DELHI In the matter of sub-section (4) of Section 13 of CompaniesAct, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of

M/s Vanaveda Lifestyle Private Limited (CIN - U93000DL2013PTC248863). naving its registered office at Max House, B Block 1 Dr. Jha Marg, Okhla, Phase - III, New Delhi-110020 Notice is hereby given to the General Public that the

company proposes to make application to the Central Sovemment under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 26/04/2022 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Uttarakhand". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal

(www.mca.gov.in) by filing investor complaint orm or cause to be delivered or send by registere post of his/her objections supported by an affidavi stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address-Regional Director, Northern Region B-2 Wing, 2nd floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: Max House, B Block 1, Dr. Jha Marg, Okhla, Phase - III New Delhi-110020 By the order of the Board For Vanaveda Lifestyle Private Limited

(Jaspreet Singh) Date: 17/05/2022 Director Place: Delhi DIN: 08055407

Director DIN: 00929463

financialexp.epapy.in

> East: Main Road

Date: 17.05.2022

21-Apr-21

.2022 t &

Uttar Pradesh-273303, R/o-2. Rajeev Nagar West - Road, North - Property of Choteylal,

Please Note: - This is also a 30 days notice Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) to the Borrowers/Co Borrowers/Mortgagors of the above said loan account about sale through tender

ı			Audited	Audited	Audited	Audited
Г	1	Total income from operations (net)	-	-8	-	
ı	2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
ı	3	Net Profit/(Loss) after tax (after Extraordinary items)	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
ı	4	Minority Interest (Share of profit/(loss) of associates)*	-	-	-	-
ı	5	Net Profit/(Loss) after tax and minority interest*	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
ı	6	Other Comprehensive Income	-	-	-	-
ı	7	Total Comprehensive Income for the period	(20.552)	(1.150)	(25.921)	(2.287)
ı	8	Equity Share Capital	350.074	350.074	350.074	350.074
ı	9	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown				
ı	П	in the Balance Sheet of previous year)	-	-	(392.859)	(366.937)
ı	10	Earning Per Share (of '10/- each)				
ı	П	Basic:	-	-	-	-
l		Diluted :	(0.488)	(0.027)	(0.615)	(0.054)
t	No	te: .The above is an extract of the details format of the Fi	inancial Resu	lts for Quarte	r and Year er	ided on 31st
1	Ma	arch, 2022 filed with Stock Exchange under Regulation	33 of the SE	BI (Listing Ol	bligations and	d Disclosure
ı	Re	equirement) Regulations,2015. The full format of the Financi	ial Results for	Quarter and Y	ear ended on	31st March,
1						

Rajiv Agarwal

New Delhi

Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

Pradesh-273303, Baij Nath Patel (Co-Borrower) S/o Radhey Shyam R/o-1. H. No. 128, Jadar PS Paniyara, Maharajganj Uttar Pradesh-273302, R/o-2. Tehsil Sadar, Jarar Post Sohna

nses 021 12.05.2022

d notice 94.00

nses 022)22 783

304.00 .2021 t &

शेयर बाजारों में छह दिन से जारी गिरावट का सिलसिला थमा

मुंबई, 16 मई (भाषा)।

वैश्विक स्तर पर मिले-जुले रुख के बीच बैंकिंग, ऊर्जा और वाहन क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में उछाल के साथ घरेलू शेयर बाजारों में पिछले छह कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया और सोमवार को सूचकांक 180 अंक की बढ़त के साथ बंद

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई स्चकांक 180.22 अंक यानी 0.34 फीसद बढ़कर 52,973.84 पर पंहुचा गया। दिन में कारोबार के दौरान यह एक समय 634.66 अंक के उछाल के साथ 53,428.28 अंक तक गया था।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 60.15 अंक यानी 0.38 फीसद की बढत लेकर 15,842.30 अंक पर बंद हुआ। इस तरह सात सत्रों में पहली बार निफ्टी में मजबती आई है। एलकेपी सिक्योरिटीज के शोध प्रमुख एस रंगनाथन ने कहा, 'बढ़ती मुद्रास्फीति और इसके विवेकाधीन खर्च पर प्रभाव के चलते निवेशकों के चिंता के बीच वाहन और बैंक

श्री इरशाद अली पुत्र रुस्तम अली (आवेदक./ च्लॉट नं. 24, राम सरोवर, ग्राम

बँक ऑफ़ इंडिया BOI

दिव्यांश इंस ऑफ कॉमर्स (प्रोप—

परमानन्द प्रसाद)

परमानंद प्रसाद)

और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

उत्तर दिशा में:— प्लॉट नंबर–52 का हिस्सा

पूर्व दिशा में:— प्रवेश / गली 15 फीट चौड़ा,

कार्पोरेट देनदार का नाम

निगमित / पंजीकत है

आरंभन की तिथि

हेतु अतिम तिथि

जारी करने की तिथि

अनुरोध जारी करने की तिथि

कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि

कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान

संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या

कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय

, कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता

तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता

अभिकृति की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि

संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान

9. धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंड

11. संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची

12 अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने

13. संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची

संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन.

5. समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना

समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि

18. निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान

योजना प्रस्तृत करने हेत् अनुमानित तिथि

19. समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन

समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई—मेल.

पता और ई—मेल. जो समाधान प्रोफेशनल के

साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है

22. अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है

जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है

23. प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि

तिथि: 17 मई 2022

ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त

17. समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने 🛮 ईमेल, पंजीकृत पोस्ट

मुल्यांकन मैटिक्स तथा समाधान योजना हेत्

10. अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् अंतिम तिथि | 06 जून 2022

प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 11.05.2022

AXIS BANK

प्रधार के अध्यक्षीन होगा ।

रजिस्टर्ड ऑफिस: त्रिशूल, तृतीय तल, समर्थंश्वर मंदिर के सामने,

प्लॉट नं. 528 ए खसरा नं.133 287 की दिनांक की दिनांक

उपरोक्त वर्णित ऋणी /मह-ऋणी/जपानतदार को ३० दिवस का भगतान हेत नोटिस दिया जाता है अन्यक्षा इस नोटिस के प्रकाशन से ३० दिवस व

प्रयमार्थीय पूर्ण होने पर बंधक प्रव्यक्ति प्रतिभति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 व १ के प्रावधानों के अनुमार बेच दी जाएगी । "प्रतिभत आस्तिर

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) परिशिष्ट−10 [नियम 8(1)] जबिक अधोहरताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **बैंक ऑफ इंडिया** की ओर से वित्तीय आस्तियों क

प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम

13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का

श्री परमानन्द प्रसाद (मुख्य देनदार), नोटिस में उल्लिखित राशि को चूकाने के लिए रू

21,58,057.90 (रूपये ईक्कीस लाख अट्ठावन हजार सत्तावन और नब्बे पैसे मात्र) आगे के

ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क सहित पूर्ण भुगतान उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर

ऋणीं द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी

जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के तहत, सुरक्षा हित प्रवर्तन

नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नियमों के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए

ऋणी को विशेष रूप से एवं जन साधारण को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे

निम्नलिखित संपत्ति से सम्बन्धित कोई लेन देन न करें तथा संपतित में किय गया कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इंडिया,पंजाबी बाग शाखा, के बकाया राशि रू.21,58,057.90 आगे के ब्याज, खर्च

अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधान के तहत, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए

अचल संपत्तियों संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का वह सभी भाग व अंश, जिसमें फ्लैट नंबर 51–52 सामने की ओर ऊपरी भूतल,

बिना छत के दाई ओर पूर्वी भाग खसरा नंबर 567 के तहत गांव बिंदापुर, दिल्ली राज्य

कॉलोनी में अनुप नगर, बी–ब्लॉक के समीप, पंखा रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059,

प्रपत्र-'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

27 सितंबर 2006

17 मई 2022

16 जून 2022

01 जुलाई 2022

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-दिल्ली

U55101DL2006PLC154353

रोड सैक्टर 49, गुरुग्राम—122018

ईमेल: ip.nimitaya@gmail.com

फोन: 0172-5085213, 5012214

ईमेलः ip.nimitaya@gmail.com फोन: 0172-5085213, 5012214

दक्षिण दिशा में:- प्लॉट नंबर 51 का हिस्सा

प्राधिकृत अधिकारीः बैंक ऑफ इंडिया

निमितया होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ६ नंबर गोल्डन गेट, वेस्टएंड

ग्रीन्स, रजोकरी नई दिल्ली-110038 भारत

प्रधान कार्यालयः होटल रैडिसन, मुख्य सोहना

24 दिसंबर 2021 (माननीय एनसीएलटी का आदेश

दिनांक 24 दिसंबर 2021 का 27 दिसंबर 2021 को देरी से

#1598, लेवल —1, सैक्टर 22 बी, चंडीगढ़—160022

#1598, लैयल -- 1, सैक्टर 22 बी, चंडीगढ़-- 160022

समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन और

पंजी.सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00361/2017-18/10619

#1598, लैयल —1, सैक्टर 22 बी, चंडीगढ़—160022

#1598, लैवल -1, सैक्टर 22 बी, चंडीगढ़-160022

#1598, लैयल —1, सैक्टर 22 बी, चंडीगढ़—160022

ईमेल: navguptaca@gmail.com

फोन: 0172-5085213, 5012214

ईमेल: ip.nimitaya@gmail.com

फोन: 0172-5085213, 5012214

ईमेल: ip.nimitaya@gmail.com

नवनीत गुप्ता

17 मई 2022

नोटः उपर्युक्त अवधि माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के बहिष्करण के अधीन है – 69 दिन जिसके तहत

अधिक जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने के लिए

समाधान प्रोफेशनल को ईमेल मेजा जाना है।

श्री प्रदीप कुमार (मुख्य प्रबंधक)

पश्चिम दिशा में :- संपत्ति का शेष भाग

स्वीकृत राशि

18,50,000

प्रयोग करते हुए दिनांक 06.12.2021 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी–

सुविधा की प्रकृति

निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा दिनांक 11 मई, 2022 को ले लिया है।

उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जो श्री परमानंद प्रसाद और हेमलता–कुमारी (उधारकर्ता) के नाम पर है।

को मोचन को लिय उपलब्ध समय को संदर्भ में काणी का ध्यान अधिनियम की थारा 13 की उपधारा (८) को उपबंधों की ओर आकुष्ट किया जाता हैं (

17.12.2021 13.05.2022

पंजाबी बाग शाखा,

22, एनडब्ल्यूए, क्लब रोड,

नई दिल्ली-110026

京、19,43,007/

+ ब्याज एवं लागते

(प्राधिकत अधिकारी), एक्सिम बैंक लिमिटेड

बकाया राशि

5.15.622.93

6,42,434.97

सूचकांक 180 अंक चढा



शेयरों ने स्थानीय बाजार को बढ़त दर्ज करने में मदद की।' सुचकांक की कंपनियों में एनटीपीसी के शेयरों में सबसे अधिक 3.05 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस, मारुति, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, टाइटन और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, दूसरी तरफ आइटी और एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में गिरावट ने

बाजार में बढत को सीमित कर दिया। इस दौरान, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में सबसे अधिक 3.01 फीसद की गिरावट हुई। एशियन पेंट्स, आइटीसी और टीसीएस के शेयर भी टूट गए। इसके अलावा बीएसई मिडकैप 1.51 फीसदी बढ़कर 22,145.10 अंक पर तथा बीएसई स्मालकैप 1.15 फीसद की बढत लेकर 25,605.99 अंक पर पहुंच गया। एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे. जबकि दक्षिण कोरिया के कास्पी और चीन के शंघाई कंपोजिट में मामूली गिरावट दर्ज की गई। यरोपीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में मिले-जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी शेयर बाजारों में शुक्रवार को मजबूती रही। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रुड 0.51 फीसद की गिरावट के साथ 111 डालर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'विदेशी संस्थागत निवेशक ऊंचा रिटर्न दे रहे अमेरिकी बांडों में निवेश कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय बाजारों में उनकी बिकवाली का सिलसिला जारी है।'

गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से मध्यप्रदेश के कारोबारियों के 5,000 ट्रक बंदरगाहों पर अटके : संगठन

इंदौर, 16 मई (भाषा)।

मध्यप्रदेश के एक कारोबारी संगठन ने गेहं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि अचानक उठाए गए इस कदम से प्रदेश के कारोबारियों के करीब 5,000 ट्रक देश के दो बड़े बंदरगाहों पर अटक गए हैं। संगठन के मुताबिक, इन ट्रकों के जरिये

गेहुं की बड़ी खेप निर्यात के लिए बंदरगाहों तक पहुंचाई गई थी। संगठन ने घोषणा की है कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ राज्य की सभी 270 कृषि उपज मंडियों में मंगलवार और बुधवार को कारोबार नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के अध्यक्ष गोपालदास अग्रवाल ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा गेहं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाए जाने से राज्य के व्यापारियों द्वारा भेजे गए करीब 5,000 ट्रक कांडला और मुंबई के बंदरगाहों पर खड़े हैं और उनमें लदी गेहूं की बड़ी खेप का निर्यात नहीं हो पा रहा है।'

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस बार गेहं निर्यात के लिए व्यापारियों को खुब

प्रोत्साहित किया था जिसके बाद उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंची कीमतों पर किसानों से जमकर गेहुं खरीदा था, लेकिन अब केंद्र के प्रतिबंध के कारण उनके निर्यात सौदे अटक गए हैं।

अग्रवाल ने कहा, 'गेहुं निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ राज्य की सभी 270 कृषि उपज मंडियों में कारोबारी मंगलवार और बुधवार को न तो माल खरीदेंगे, न ही बेचेंगे।' उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार को कारोबारियों और किसानों दोनों के हित में प्रतिबंध को वापस लेते हुए गेहूं निर्यात को बहाल करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भीषण गर्मी और लू की वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच भारत ने अपने इस प्रमुख खाद्यान्न की कीमतों में आई भारी तेजी पर अंकुश लगाने के मकसद से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।

केंद्र ने कहा है कि पड़ोसी और कमजोर देशों की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के अलावा इस फैसले से गेहूं और आटे की खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी जो पिछले एक साल में औसतन 14 से 20 फीसद तक बढ गई हैं।

विमान ईंधन की कीमतों में 5.3 फीसद की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 16 मई (भाषा)।

विमान ईंधन की कीमतों में सोमवार को 5.3 फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह इस साल 10वीं वृद्धि है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में जोरदार तेजी के कारण विमान ईंधन की कीमत उच्चतम स्तर पर है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मृताबिक राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमत 6,188.25 रुपए प्रति किलोलीटर या 5.29 फीसद बढ़कर 1,23,039.71 रुपए प्रति किलोलीटर (123 रुपए प्रति लीटर) हो गई है। विमान ईंधन की कीमतों में इस साल यह 10वीं वृद्धि है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकार्ड 10 रुपए प्रति लीटर की बढोतरी के बाद लगातार 41वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। विमान ईंधन की कीमतों को हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधित किया जाता है, जबकि पेट्रोल और डीजल की दरों को हर दिन संशोधित किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 मार्च से छह अप्रैल के बीच 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद से

हम लोगों को जोड़ते हैं, भाजपा बांटती है: राहुल गांधी

जयपुर, 16 मई (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी जहां लोगों को जोड़ती है, वहीं भाजपा उन्हें बांटने का काम करती है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा 'दो हिंदुस्तान' बनाना चाहती है जबिक मोदी ने नोटबंदी की. गलत जीएसटी लाग कांग्रेस एक ऐसा हिंदुस्तान चाहती

है जिसमें हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिले। राहुल गांधी सोमवार को बांसवाड़ा के ग्राम कराना (बिछावाड़ा) में 🍆 एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा

है, जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है. सबका इतिहास सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है। यह कांग्रेस पार्टी कहती है।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है, जो लोगों को बांटने का काम करती है, उन्हें कचलने– दबाने का काम करती है, जो आदिवासियों के इतिहास तथा संस्कृति को दबाने व मिटाने का काम करती है।' उन्होंने कहा, 'यह लड़ाई आज हिंदुस्तान में चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वे बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वे बड़े चुनिंदा उद्योगपतियों की मदद करते हैं।' राहल गांधी ने दावा किया कि

पूर्ववर्ती संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, लेकिन भाजपा की मौजूदा केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहंचाया है।

उन्होंने आरोप लगाया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र की... इससे हमारी अर्थव्यवस्था

नष्ट हो गई।' राहुल गांधी ने कहा, 'हिंदुस्तान में आज हर युवा जानता है कि देश में उसे रोजगार नहीं मिल सकता। महंगाई बढ़ती जा 🖣 रही है।' उन्होंने कहा, 'भाजपा दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है। एक अमीरों का, दो तीन बड़े उद्योगपतियों का, दुसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का,

पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक ही हिंदुस्तान चाहते हैं। एक ऐसा हिंदस्तान, जिसमें हर व्यक्ति को अपना सपना पुरा करने का मौका मिलना चाहिए।' कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आदिवासियों का बहुत पुराना तथा गहरा

राहुल गांधी ने कहा, 'हम आपके इतिहास की रक्षा करते हैं, हम आपके इतिहास को मिटाना या दबाना नहीं चाहते हैं। केंद्र में जब हमारी, संप्रग की सरकार थी तब हम आदिवासियों के जंगल, जल, जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कानून ले कर आए थे।

एक ही नुकसान के लिए दोहरा 'क्लेम' नहीं लिया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 16 मई।

सप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 'ओवरलैपिंग इंश्योरेंस पालिसीं' यानी दोहरे बीमे के मामलों में. जब बीमाधारक को हुई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति एक बीमाकर्ता ने कर दी हो तो दुसरा बीमाकर्ता उसी घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। परिभाषित नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए बीमे का अनुबंध हमेशा एक ही होता है, न ज्यादा और न कम। विशिष्ट जोखिमों, जैसे कि आग के कारण हुए नुकसान आदि के लिए बीमित व्यक्ति दोहरे बीमे से लाभ नहीं उठा सकता है।

न्यायमुर्ति युयु ललित, न्यायमुर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को स्वीकार करते हुए यह अहम कानुनी व्याख्या की है। आयोग ने बीमा कंपनी को बीमाधारक की ओर

से पेश दावे के विपरीत 1.78 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा कंपनी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। मुद्दा 'दोहरे बीमे/ओवरलैपिंग पालिसी' का है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने लेविस स्ट्रास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पालिसी जारी की थी। जिसके तहत पहले एक जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007 की अवधि के लिए और फिर एक जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 की अवधि के लिए कपंनी के स्टोरेज में मौजूद स्टाक को कवर किया गया था।

कीमतें स्थिर हैं।

बीमाकृत लेविस स्ट्रास एंड कंपनी ने एक मई 2008 से 30 अप्रैल 2009 की अवधि के लिए एलियांज ग्लोबल कारपोरेट एंड स्पेशियलिटी से भी एक ग्लोबल पालिसी कराई। इस ग्लोबल पालिसी ने बीमाकृत सहित उसकी सभी सहायक कंपनियों के स्टाक को कवर किया।

सीएनजी की कीमत में दो रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, 16 मई (भाषा)।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में दो रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। पिछले दो महीने में यह 12वीं वृद्धि है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमत अब 71.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कीमतों में सात मार्च के बाद यह 12वीं बढ़ोतरी है। इस दौरान कुल

पिछले दो महीने में यह 12वीं वृद्धि है

मिलाकर सीएनजी की कीमत 17.6 रुपए प्रति किलोग्राम बढी है। सिर्फ अप्रैल में सीएनजी 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में कीमतों में 30.21 रुपए प्रति किलोग्राम या 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) 45.86 रुपए प्रति एससीएम पर अपरिवर्तित है।

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF INDERGIRI FINANCE LIMITED

(SE 1990)

Corporate Identification Number: L65923MH1995PLC161968 Registered Office: Office No 327, 3rd Floor, Goyal Trade Centre, Near Sona Talkies, Shantivan, Borivali (East), Mumbai - 400066, Maharashtra, India; Contact Number: 022-22016956; Fax Number: 022-22016956;

Website: www.indergiri.com; Email Address: info@indergiri.com;

This corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Public Announcement dated Wednesday, March 2022, ('Public Announcement'), the Detailed Public Statement dated Monday, March 14, 2022, which was published in the inancial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition) on [uesday, March 15, 2022 ("Newspapers") ("Detailed Public Statement"), the Draft Letter of Offer dated Tuesday, March 22, 2022 "Draft Letter of Offer"), and the Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form No. SH-4 Securities Transfer Form dated Monday, May 16, 2022 ('Letter of Offer') ('Corrigendum to the Letter of Offer') is being issued by CapitalSquare Advisors Private Limited, the Manager to the Offer ("Manager") for and on behalf of the Roshan Shah ("Acquirer 1") Anand Devendra Tiwari ('**Acquirer 2**'), Wunnava V Shanker ('**Acquirer 3**'), and Mohit Agarwal ('**Acquirer 4**') (Acquirer 1, Acquirer 2. Acquirer 3, and Acquirer 4 are hereinafter collectively referred to as 'Acquirers'), in respect of the open offer for acquisition of up to 13,15,860 (Thirteen Lakhs Fifteen Thousand Eight Hundred and Sixty) fully paid-up equity shares of face value of ₹10.00/-Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") representing 26.00% (Twenty-Six Percent) of the voting share capital of Indergin Finance Limited ('INDERGR' or 'Target Company') at an offer price of ₹10.30/- (Rupees Ten and Thirty Paise Only) per Equity Share in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 and such other applicable Regulations of the Securities and

hereto ('SEBI (SAST) Regulations'). The capitalized terms used but not defined in this Corrigendum to the Letter of Offer shall have the meaning assigned to such terms

Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments

in the Offer Documents. Non-Receipt of Reserve Bank of India's approval

The Acquirers have made an application with the Reserve Bank of India for change in control and management of the Target Company. However, as on date of the Letter of Offer, the Target Company is yet to be in receipt of the necessary approval from the Reserve Bank of India, for the said change in control and management of the Target Company in pursuance of this Offer and purchase of Equity Shares pursuant to the Share Purchase Agreement. Except for being in receipt of the approval from the Reserve Bank of India, there are no other statutory approval(s) required by the Acquirers to complete this Offer. In accordance with the provisions of Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations, if at the time of making payment to the Eligible Public Shareholders who have tendered their Equity Shares in the said Offer, the Target Company fails to receive the requisite approval from the Reserve Bank of India, then in such an event, an application shall be made to SEBI seeking extension of time from making payment to the said Public Shareholders, subject to ensuring revision in the Offer Price by addition of the delayed interest at the rate of 10.00% (Ten Percent) per annum on the Offer Price.

Paragraph 5.13, under Paragraph 5 titled as 'Background of the Target Company' on page 17 of the Letter of Offer In accordance with the SEBI Observation letter bearing reference number 'SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2022/19390/1' dated Friday, May 06, 2022, following are the insertions which shall be read in conjunction to the Letter of Offer:

The Promoter Sellers, have belatedly filed the following disclosures in accordance with the provisions of Regulation 30 (1)/

Sr. No.	Regulation of SEBI (SAST) Regulations	Financial Year ending March 31	Due date for compliance as mentioned in the regulation	Actual date of compliance	Delay, if any (in no of days) Col.4-Col.3	Status of compliance with SEBI (SAST) Regulations	Remarks
a)	30 (1)/30 (2)	2020*	Monday, June 01, 2020	Tuesday, June 09, 2020	08 days	Non- compliance	Delayed Complied
b)	30 (1)/30 (2)	2021	Monday, April 12, 2021	Saturday, July 10, 2021	89 days	Non- compliance	Delayed Complied

As on date no action has been initiated by SEBI, however, SEBI may initiate appropriate action against the Promoter Sellers

for the aforesaid violation in terms of the SEBI (SAST) Regulations and provisions of the SEBI Act.

Paragraph 13 titled as 'Documents for Inspection' on page 33 of the Letter of Offer

The copies of the following documents will be available for inspection at the registered office of the Manager, CapitalSquare Advisors Private Limited, located at 205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No.11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India or the Public Shareholders of the Target Company may access the said documents on https://capitalsquare.in/ifl-oo-id and obtain the login credentials from the Manager, on any working day between 10:00 a.m. (Indian Standard Time) and 5:00 p.m. (Indian Standard Time) during the Tendering Period commencing from Wednesday. May 25, 2022 to Tuesday, June 07, 2022. Further, the Public Shareholders can contact the Manager during the Tendering Period for obtaining the credentials to enable them to access the documents as specified in Documents for Inspection.

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Letter of Offer and for their obligations as prescribed under the SEBI (SAST) Regulations. ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED



205-209, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India Contact Number: +91-22-66849999/ 138/ 145 Email Address: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in/ pankita.patel@capitalsquare.in/

Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee/Ms. Pankita Patel SEBI Registration Number: INM000012219 Validity: Permanent

Corporate Identification Number: U65999MH2008PTC187863

Website: www.capitalsquare.in

Date: Monday, May 16, 2022

On behalf of the Acquirers

Mohit Agarwal

अनचाही फोन काल से परेशान हैं भारतीय

Mortgage with SBI, RACPC A-1/24, First Floor, Janakpur

oan A/c No. 40062645360 is/are not traceable/ misplac

ew Delhi-110058, the original were kept with bank vide

e details of documents are as under: (1) Original Shan

hare numbered from 958-1005) issued by Guru Ram

bass CGHS Ltd in favor of Shri Nitin Aggarwal for 50

Share of Rs. 100/- each belongs to Freehold Society

build up Flat No.703, Guru Ram Dass CGHS Ltd, Plo

original and informed as missing as well the abor

said original documents is misplaced/ Not Traceable t

the Bank and did not find it inspite of all sincere efforts

An online missing complaint/ NCR/ LR is registered with

Delhi Police, PS Crime Branch vide LR No. 404896/2022.

dated 16.05.2022. If anybody found the above mentioned

all or any documents please inform / return it to the

indersigned on the above mentioned address. Any

isuse of the any or all said document will liable to

Asst. General Manager, State Bank of India,

No.3-B, Sector-22, Dwarka, New Delhi is/are not traceab

ertificate dated 10.01.1999 bearing Certificate No. 17

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 16 मई।

मोबाइल फोन पर आने वालीं अनचाही काल से भारतीय बहुत परेशान हैं। एक सर्वेक्षण में शामिल 64 फीसद भारतीयों ने माना कि हर दिन उन्हें तीन या उससे अधिक अनचाही काल आती हैं। अधिकतर अनचाही काल नए खाते, ऋण, बीमा और

PUBLIC NOTICE

(recorded lessee) R/o property No. III/5/51. S

No. 52/2 Shastri Bazar, Delhi Cantt hay

requested to the office of Delhi Cantonmer

Board for mutation & transfer of lease hold rights

in respect of property No. III/5/51 comprising o

Survey No. 52/2 Shastri Bazar, Delhi Cantt, bein

legal heirs of the recorded lessee, to the extened

of the rights of the recorded lessee. The

ownership of the land vests in Govt. of India

Ministry of Defence. If any person has objectior

to the mutation of above property/transfer

ease hold rights in favour of above applications

may file his/her objections within 30 days of the

publication of this notice to the undersigned with

documentary proof in support of his/her objection

failing which the matter shall be referred to the

competent authorities for consideration and

Chief Executive officer

Delhi Contonment Board

taking appropriate decision as per law.

रियल एस्टेट से संबंधित

t is to bring to the notice of all concerned that Kuldip Singh, S. Swinder Singh, Sardar Gursharan Singh all S/o Sh. Mohan Singh

को अपने सर्वेक्षण में शामिल किया। दूसरी ओर, 'टू कालर' ऐप

ने देश के 377 जिलों

के 37 हजार से

अधिक उपभोक्ताओं

'काल' आती हैं। के मुताबिक भारतीयों को दुनिया में सबसे अधिक

सर्वक्षण के मुताबिक

64 फीसद भारतीयों को

प्रतिदिन तीन अनचाही

अनचाही काल आती हैं। यहां हर उपभोक्ता को हर महीने औसतन 17 अनचाही काल आती हैं।

सर्वेक्षण में जब उपभोक्ताओं से पूछा गया कि

उन्हें प्रतिदिन औसतन कितनी अनचाही काल आती हैं? इसके जवाब में 37 फीसद ने बताया कि उन्हें हर रोज तीन से पांच अनचाही काल आती हैं।

32 फीसद ने एक-दो काल बताया, 18 फीसद ने छह से 10 और नौ फीसद लोगों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन 10 से अधिक अनचाही काल आती हैं। सर्वेक्षण में शामिल सिर्फ एक फीसद लोगों ने कहा कि उन्हें कोई अनचाही काल नहीं

RACPC, A-1/24, First Floor, Janakpuri, New Delhi-58 आती है। Tele:- 011-25693837, 011-25695450 Email Id: racpc.janakpuri@sbi.co.in सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बी1/26, सेक्टर-18, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 सीआईएन नं. : L25201UP1992PLC018150, दूरभाष नं. : 8447772518, वेबसाइट : www.sudev.co.in, ई-मेल : info@sudev.co.in 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित परिणामों का सार समाप्त विर्ता

(लाखों में समाप्त वित्त तिमाही तिमाही वर्ष विवरण 31.03.2022 31.03.202 31.03.2022 31.03.2021 अंकेक्षित अंकेक्षित अंकेक्षित 1 प्रचालनों से कुल आय शुद्ध 2 कर से बाद साधारण क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि) (1.150)(25.921)(2.287)(20.552)3 कर से बाद शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण मदों के बाद) (25.921) (20.552)(1.150)(2.287)4 माइनॉरिटी इन्टरेस्ट (एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का शेयर* 5 कर तथा मॉइनारिटी इन्टरेस्ट के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (20.552) (1.150)(25.921)(2.287)6 अन्य व्यापक आय अवधि के लिये कुल व्यापक आय (20.552)(1.150)(25.921)(2.287)8 इिक्वटी शेयर पुंजी 350.074 350.074 350.074 350.074 9 | आरक्षित [पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर] (392.859) (366.937)10 आय प्रतिशेयर (रु. 10/- प्रति का)

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्स्चैंज में दाखिल 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथ वर्ष के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्स्चैंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.sudev.co.in) पर उपलब्ध है।

(0.488)

(0.027)

बोर्ड के आदेश र सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये राजीव अगरवाल (निदेशक

(0.615)

(0.054)

सड़क महिला जज की मौत

बीकानेर, 16 मई (भाषा)।

राजस्थान में बीकानेर जिले में बीकानेर-खाजूवाला राजमार्ग पर एक जीप

एवं कार की भिडंत में एक महिला

जज की ही मौत हो गई, जबिक तीन अन्य लोग घायल हो गए।

www.readwhere.com

स्थानः वंडीगढ

एनसीएलएटी, नई दिल्ली पीठ ने उस अवधि के दौरान सीओसी का गठन नहीं करने का आदेश दिया था)

पंजीकरण सं::IBBI/IP-001/IP-P00361/2017-18/10619

समाधान प्रोफेशनल, निमित्तया होटल एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड Place: Mumbai

तिथि: 16 मई, 2022

स्थानः उत्तर प्रदेश

मैसर्स विपुल लिमिटेड ("कंपनी) का पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017 में और कॉपोर्रेट ऑफिस विपुल टेकस्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43 गुरुग्राम-122009, हरियाणा में है, ने विपुल प्लाजा भुवनेश्वर, उड़ीसा परियोजना में धरोहर राशि सह बुकिंग राशि के बदले आवासीय/वाणिज्यिक फ्लैटों का अनंतिम आवंटन किया था और कंपनी के आवंदन पूपत्रों पर हस्ताक्षर करते वक्त आवंटन में नियमों और शर्तों निहित थी।

कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार, निम्नलिखित आवंटियों ने अपने संबंधित बकाया/किश्तों/ब्याज आदि का भुगतान प्रावधान आवंटन (आबंटन) की शर्तों के अनुसार नहीं किया है, कई अनुस्मारक/लिखित संचार के बावजुद और इसके एक समृह के रूप में, अनंतिम संदर्भित इकाई(यों) का आवंटन रद्द किया जाता है।

gh. સ.	आवदक का नाम	ब्लाक	यू।नट	पता	क्षत्र (वग फुट)
1.	श्री सस्मीता साहू	सी	109	मार्फत- मै. सार ड्रग्स एलएलपी 178,	273
	श्री रश्मी रंजन			दूसरा तल, आरपीएस कालोनी, एम.बी.	
	सामंता राय			रोड, खानपुर, नई दिल्ली-110062	
2.	श्री सस्मीता साहू	सी	110	मार्फत- मै. सार ड्रग्स एलएलपी 178,	273
	श्री रश्मी रंजन			दूसरा तल, आरपीएस कालोनी, एम.बी.	
	सामंता राय			रोड, खानपुर, नई दिल्ली-110062	

हस्ता/- सुनील कुमार तिथिः 16 मई, 2022 स्थानः गुरूग्राम

सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड <mark>पंजी</mark>कृत कार्यालयः बी 1/26, सेक्टर—18, नोएडा गौतम बुद्ध नगर यूपी— 201301

सीआईएन नंबर: L25201UP1992PLC018150, दूरभाष नंबर: 8447772518 वेबसाइट: www.Sudev.co.in, ई-मेल: info@sudev.co.in अंशों की जब्ती के लिए सार्वजनिक सचना

कंपनी के आंशिक रूप में प्रदत्त उन समता अंशों को जब्त करने के संबंध में सूचना, जिन पर समता अंशों वे धारकगण दिनांकित 1 मार्च 2022 की पहली और अंतिम कॉल मनी नोटिस तथा दिनांकित 4 अप्रैल 2022 को अंतिम मांग सह जब्ती नोटिस के अनसार कॉल मनी का भगतान करने में विफल रहे हैं। हमारी कंपनी के रु. 10 प्रत्येक के आंशिक रूप में प्रदत्त 14.25.125 (चौदह लाख पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस समता अंशों, जो आवंटित किए गए थे, का निर्गतन, जिसके समक्ष कंपनी द्वारा आवंदन / आवंटन के समय फ केवल रु. 5 रुपये प्रति अंश के हिसाब से रु. 71,25,625 / – (रुपए इकहत्तर लाख पच्चीस हजार छह सौ

पच्चीस मात्र) की राशि प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, शेष रु. 5.00 (रुपए पांच मात्र) प्रति आंशिक रूप में चकताकत समता अंश राशि रु. 71.25.625 / - (रुपए इकहत्तर लाख पच्चीस हजार छह सौ पच्चीस मात्र) अप्रदत्त यानी बकाया रह गई थी। भुगतान विधि प्रति समता अंश भुगतानयोग्य राशि अर्थात निर्गत मुल्य मूल्य (ড়.) (ড়.)

71,25,625.00 14,25,125 पहली एवं आखिरी कॉल 14,25,125 71,25,625.00 1.42.51.250.00 कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में रु. 5.00 प्रति आंशिक रूप में चकताकत समता अंश की पहली और अंतिम कॉल मनी के भूगतान के लिए कंपनी के ऐसे आंशिक रूप में प्रदत्त समत अंशों के धारकों को नोटिस भेजने का फैसला किया था. जिस पर पहली और अंतिम कॉल मनी प्रदत्त है सचना दिनांकित 1 मार्च 2022 कंपनी के सभी पात्र अंशधारकों को पहली और अंतिम अप्रदत्त कॉल मनी के भगतान के लिए भेजी गई थी. जिसमें कंपनी ने प्रथम और अंतिम कॉल मनी के भुगतान के लिए 2 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2022 तक की 30 दिनों की समयावधि प्रदान की थी। इसके बाद एक और अवसर

ऐसे सभी अंशधारकों को दिया गया, जिन्होंने पहली और अंतिम कॉल मनी का भूगतान नहीं किया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 1 अप्रैल 2022 को हुई अपनी बैठक में ऐसे सभी अंशधारकों को अंतिम मांग सह जब्ती

सूचना भेजने का निर्णय लिया था, जिनसे 31 मार्च 2022 तक प्रथम एवं अंतिम कॉल मनी प्राप्त नहीं हुई थी।

... तदनुसार, सभी पात्र अंशधारकों को अंतिम मांग सह जब्ती सूचना दिनांकित ४ अप्रैल २०२२ प्रेषित की गई थी

और भगतान के लिए 16 दिवसीय अवधि, 5 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, प्रदान की गई थी। कृपया यह सूचना प्राप्त करें कि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 26 और अन्य लागू अनुच्छेदों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में रु. 10 / प्रत्येक के 14,25,125 (चौदह लाख पच्चीस हजार एक सौ पच्चीस) समता अंश जब्त किए हैं, जिनमें से रु. 71,25,625/- (रुपए इकहत्तर लाख पच्चीस हजार छह सौ पच्चीस मात्र) की एक कुल राशि अभी भी अप्रदत्त है, जिसके विवरण हम आगे सचित करते हैं कि कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 30 के अनुसार, जब्ती के होते हुए भी, सदस्यगण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी को मांग पर सभी कॉल, किस्त. ब्याज

तक उस पर ब्याज के साथ, जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है और बोर्ड यदि उचित समझे तो उस भुगतान को लागू कर सकता है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि कृपया किसी भी आंशिक रूप में प्रदत्त अंश का लेन–देन न करें और उन्हें

और व्यय के संबंध में या इसके संबंध में तत्काल भूगतान करेंगे, जब्ती के समय से लेकर के भूगतान होने

रिकॉर्ड के लिए कंपनी को वापस कर दें। कंपनी ने जब्ती के बाद ऐसे सभी अंशों को निरस्त भी कर दिया है, यदि कोई व्यक्ति उन जब्त अंशों का लेन–देन करता है, तो कंपनी ऐसे लेन–देन के लिए उत्तरदायी नही होगी। जब्त किए गए अंशों की सुची कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.sudev.co.in पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेश द्वारा



Punjab & Sind Bank पंजाब एण्ड सिंध बेंक बी.ओ.- पहारगंज, 5/1, डी. बी. गुप्ता रोड. पहारगंज. नई दिल्ली 110055

फोन: 011-23617738 ईमेल : D0019@psb.co.in

1- श्रीमती राज वाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल के-1, 3रा तल, मैन मार्केट, लक्ष्मी नगर, राधेश्याम मंदिर के सामने, दिल्ली-110092

ऋणधारक/मार्टगैजर 2-श्री नरेश कुमार गोयल, पुत्र श्री मालीराम गोयल,

तिथि: 06.05.2022

के-1, 3रा तल, मैन मार्केट, लक्ष्मी नगर, राधेश्याम मंदिर के सामने, दिल्ली-110092

3. श्री सुमित कुमार शर्मा, पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा, ए-28, ब्लॉक -ए, गुरु राम दास नगर, नगर

संदर्भः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना प्रिय महोदय

1. आप एड्रेसी सं. 1 श्रीमती राज वाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल एवं एड्रेसी नं. 2 श्री नरेश कुमार गोयल, पुत्र श्री माली राम गोयल ने वित्तीय सहायता के लिये बैंक से अनुरोध किया जिस पर 20.06.2016 को आपको निम्न सुविधा मंजुर एवं स्वीकृत की गई सम्पत्ति के लिये रु.2500000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की ऋण

उक्त ऋण सविधा उप रजिस्टार VIII. नई दिल्ली/दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत क्रमांक 6315 में बक नं. 1, वॉल नं. 3437, पेज 88 से 95 में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 19.5.2008. के द्वारा एड्रेसी नं. 1, श्रीमती राज वाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल के स्वामित्व में के-1 ब्लॉक के तीसरा तल, छत के अधिकार के साथ माप 83.60 वर्ग मी., खसरा नं 58/14, ग्राम ख़ुरेजी खास, राधे श्याम मंदिर के सामने मैन मार्केट लक्ष्मी नगर, शाहदरा, दिल्ली-110009 में अचल सम्पत्ति के इक्विटैबल मार्टगैज द्वारा विधिवत प्रतिभृत है,

2. आप एड्रेसी नं. 1 श्रीमती राज वाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल एवं एड्रेसी नं.2 श्री नरेश कुमार गोयल, पुत्र श्री माली राम गोयल ने 20.6.2016 को उक्त सुविधा के लिये विभिन्न ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किये तथा उक्त सुविधा के लिये विभिन्न ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किये तथा उक्त सुविधा के लिए समय-समय पर बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआर + 2.25% प्रति वर्ष, मासिक रैस्ट्स के ब्याज दर का भगतान करने के लिए सहमत हुए।

3. कि आप एड्रेसी नं. 3 श्री सुमित कुमार शर्मा, पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा उक्त ऋण सुविधा की अवधारणा में एड्रेसी सं. 1 एवं एड्रेसी सं. 2 के लिये गारंटर बने तथा बैंक के पक्ष में 20.6.2016 को कन्टीन्यूइंग गारंटी का डीड निष्पादित किया. इस प्रकार एडेसी सं. 3 की देयता में उतना हीं व्यापक है तथा आप सभी संयुक्त एवं पृथक रूप से बैंक को ब्याज, लागतों तथा अन्य परम्परागत बैंक शुल्कों सहित उसकी देयताओं का भगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। 4. कि आप एड्रेसी नं. 1 श्रीमती राज वाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल ने के-1 ब्लॉक के तीसरा

तल, छत के अधिकार के साथ माप 83.60 वर्ग मी., खसरा नं 58/14, ग्राम खुरेजी खास, राधे श्याम मंदिर के सामने मैन मार्केट लक्ष्मी नगर, शाहदरा, दिल्ली-110009 में अचल सम्पत्ति के इक्विटैबल मार्टगैज का एडेसी सं..1 एवं 2 के लिये उक्त ऋण सविधा की अवधारणा में बैंक के बकाये को प्रतिभत करने के लिये उप रजिस्टार VIII नई दिल्ली/दिल्ली के कार्यालय में पंजीकत बक नं. 1. वॉल नं. 3437, पेज 88 से 95. क्रमांक 6315 में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 19.05.2008 के माध्यम से निर्माण किया।

क. मार्टगैजर का नाम : एड्रैसी नं. 1 श्रीमती राज बाला गोयल, पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल ख. मार्टगैजर : पंजाब एंड सिंध बैंक, बी.ओ.-पहारगंज, नई दिल्ली

ग. प्रतिभूत राशि : रु. 2500000/-(रु.पच्चीस लाख मात्र)

गिरवी सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

5. गिरवी सम्पत्ति का विवरण : ग्राम खरेजी खास, राधे श्याम मंदिर के सामने, मैन मार्केट, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, दिल्ली-110092 में स्थित के-1 के ब्लॉक, तीसरा तल, छत के अधिकार के साथ, माप 83.61 वर्ग मी., खसरा नं. 58/14

च. टाइटल डीड का विवरण : उप रजिस्ट्रार VIII नई दिल्ली/दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत बुक नं. 1, वॉल नं. 3437, पेज 88 से 95, क्रमांक 6315 में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तिथि 19.05.2008 छ. सम्पत्ति की चौहद्दी : पूर्व : मैन रोड/सम्पत्ति का भाग, पश्चिम : रोड/राधेश्याम मंदिर के सामने, उत्तर

: सम्पत्ति सं. के-2. दक्षिण : अन्य समित : ज. वर्तमान बकाया देयताः रु. 2036826.36+01.05-2022 से ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे, 5. उक्त ऋण की पुनअदाययी मासिक रेस्ट्स के साथ सम्पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज @ बीमार +

2.25% प्रति वर्ष के साथ रु.33215/- की 144 ईएम आई में की जानी थी। 6. कि, आपने स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों तथा ऋण दस्तावेजों के अनुसार चूक की स्थिति में मासिक ब्याज दर के साथ सामान्य स्वीकृत दर से ऊपर एवं

अधिक 2% प्रतिशत प्रति वर्ष के अतिरिक्त ब्याज के भुगतान की स्वीकृति दी थी। 7. कि आपने 20.6.2016 को ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया।

8. कि 01-05-2022 को आपकी खाता को गैर-प्रचालन परिसम्पति वर्गीकृत किया गया,

9. कि हमारा बैंक नियमित खाता पस्तकों का प्रबंध करता है तथा अब खाता नं.00191200085642 में रु.2036826.36/- + 01.05.2022 से ब्याज तथा बैंक चार्जेज एवं खर्चें आप एड्रेसी सं. 1 से 3 पर बकाया तथा कानूनी रूप से देय है तथा आप सभी सम्पूर्ण भुगतान तक तक ब्याज, लागत तथा अन्य परम्परागत

बैंक चार्जेज के साथ बैंक को उक्त बकाये का पृथक एवं सयुक्त रूप से भुगतान करने के लिये उत्तरदायी 10. कि, बैंक के आंतरिक दिशा निदेशों के अनुसार समय-समय पर ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है

तथा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार वर्तमान ब्याज दर मासिक रेस्ट्स के साथ 9.85 11. कि, आप किसी को भी प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का अंतरण, एसाइम, पट्टा अथवा अन्य रूप से व्यवसाय

नहीं करेंगे। 12. कि, आपने उपरोक्त बैंक के प्रतिभृत बकाये की पुनअदायगी में चुक की है।

13.आपका ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी, कोंटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा सार्वजनिक संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत. चार्जेज, खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते है। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी, कोटेशन, जनता से निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सुचना के प्रकाशन की तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, चार्जेज खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं करते है, तो आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति को विमोचित करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। अतएव. इस सांविधिक सचना के द्वारा आप सभी अर्थात संबोध्य सं. 1 से 3 को मैं निर्देश देता हं कि इस सचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर रु. 2036826.36/-+1.5.2022 से ब्याज तथा बैंक चार्जेज के साथ बैंक की सम्पूर्ण देयता का संयुक्त तथा पृथक रूप से भुगतान कर अपनी देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा, बैंक उक्त प्रतिभूत बकाये की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2022 के चैप्टर 川 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिये बाध्य होगा तथा उस स्थिति में आप उसके कारण हुई सभी लागत तथा अन्य खर्चे का भूगतान करने के

आपका विश्वास भाजन पंजाब एंड सिंध बैंक (प्राधिकृत अधिकारी)

कृपया यह ध्यान रहे कि इस सूचना की प्रति हमारे कार्यालय में रखी गई है।

लिये संयुक्त तथा पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे।

नालामा सह बिक्रा हत सावजानक सचना (पाराशष्ट-IVA) (1नयम ८(६))

इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाख कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैस् कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसली के लिए अधिनयम की धारा 13(2) के तहत जारी सचना वे अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिय था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

कर्जदार(रों)/सह- कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) के नाम	माँग सूचना की तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्ति∕प्रतिभूत आस्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि
 श्रीमती रूपन अहलूवालिया श्री कमल अहलूवालिया (प्रॉस्पेक्ट नं. 726038) 	14-फरवरी-2021 रु. 68,46,430/- (रुपये अड़सट लाख छियासी हजार चार सौ तीस मात्र) संविदा वृद्धि राशि रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	फ्लैट नंबर सीडी-ए7-04- 402, चौथी मंजिल, टॉवर-ए- 7, आईआरईओ-द कॉरिडोर, सेक्टर- 67-ए, गुड़गांव, हरियाणा का सम्पूर्ण भाग (निर्मित क्षेत्र:- 1920.22) वर्ग फुट)	24-मार्च-2022 तिथि 25-मार्च-2022 तक कुल बकाया रु. 64,36,410/- (रुपये चौंसठ लाख छत्तीस हजार चार सौ दस मात्र)	रु. 98,31,500/- (रुपये अट्ठानबे लाख इकतीस हजार पांच सौ मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 9,83,150/- (रुपये नौ लाख तिरासी हजार एक सौ पचास मात्र)	06-जून-2022 1100 बजे-1400 बजे ईएमडी की अनिम तिथि 08-जून-2022 को 5 बजे अप. ई-नीलामी की तिथि/समय 10-जून-2022 1100 बजे-1300 बजे
 श्री मुनीश सैनी फियामे क्लोदिंग्स प्राइवेट लिमिटेड श्री एम.पी. सैनी श्रीमती शशि किरण सैनी (प्रॉस्पेक्ट नं. 833650, 940235) 	02- नवम्बर -2021 रु. 39,58,402/- (रुपये उनतालीस लाख अट्ठावन हजार चार सौ दो मात्र) संविदा वृद्धि राशि रु. 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र)	प्लॉट नं. ए-1/1 और ए-1/2 कुल क्षेत्रफल 1023.44 वर्ग गज, खसरा नंबर 337 में से, इलेक्ट्रॉनिका सिटी, गांव मीरपुर हिंदू, परगना लोनी, गाजियाबाद, 201102, उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण भाग	सांकेतिक कब्जे की तिथि 22-मार्च-2022 तिथि 13-मई-2022 तक कुल बकाया रु. 38,50,749/- (रुपये अड़तीस लाख पचास हजार सात सौ उनचास मात्र)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,94,860/- (रुपये दो लाख चौरानबे हजार आठ सौ साठ मात्र)	01-जून-2022 1100 बजे-1400 बजे इंएमडी की अन्तिम तिथि 03-जून-2022 को 5 बजे अप. इं-नीलामी की तिथि/समय 7-जून-2022 1100 बजे-1300 बजे

भुगतान का माध्यम : संभी भुगतान ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में गुरुग्राम में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम किये जाने हैं। खाता विवरण निम्नवत हैं : (क) खाते का नाम : आईआईएफएल हो फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 53105066294, (घ) आईएफएसर्स कोड : SCBL0036025 या पेमेंट लिंक : https://quickpay.iiflfinance.com के माध्यम से।

- ı. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगि आईडी तथा पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जम्
- संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा।
- सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मुल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभु लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भगतान निर्धारित भगतान माध्यम में करने होंगे। क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकरिमक लागतों, प्रभारे
- तथा सभी करों एवं दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा। संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेत अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तुत नियम एवं शर्तों हेत वेबसाइ https://bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है। अधिक विवरण. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर 7291981124/25/26 तथा सम्पत्ति से सम्बन्धित पुछताछ के लिए श्री विजय कुमार, मोबाइल : 9811562664, ई-मेल आईडी : vijay.kumar15@iifl.com / श्री संजय कुमार, मोबाइल
- 9643304680, ई-मेल आईडी : kumarsanjay@llfl.com से सम्पर्क कर सकते हैं। एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कन्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सुचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियो में सम्पत्ति के किसी नकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एतद्वारा कर्जदारों के सचना दी जाती है कि यदि वे उपर्यक्त कथित वस्तएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानन के अनसार बेच दिया जायेगा।
- यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पनः बिक्री पर रखा जायेगा।
- 10. एओ को बिना कोई कारण बताइए निवेदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निवेदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल एचएफएल के एओ का निर्णय अन्तिम होगा। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 के उपनियम (1) के तहत 15 दिवसीय विधिक बिक्री सुचना

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भगतान करने के लिए अधिसचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति क नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसूल किया जायेगा।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 13 मई, 2022 ह./- अधिकृत प्राधिकारी कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड



Butterfly Gandhimathi Appliances Limited 143, Pudupakkam Village, Vandalur-Kelambakkam Road, Kelambakkam,

Chengalpattu District - 603 103. Ph: 044- 4900 5154/ 044 4741 5500 W: www.butterflyindia.com

1.	Date	May 16, 2022		
2.	Name of the Target Company (TC)	Butterfly Gandhimathi Appliances Limited		
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open Offer by Crompton Greaves Consumer Electricals Limited ('Acquirer') for acquisition of up to 46,48,684 fully paid-up equity shares of face value of Rs.10 each ('Equity Shares'), representing 26.00% of the voting share capital of TC from the Public Shareholders pursuant to and in compliance with the requirements of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Open Offer Price: Rs 1433.90/- per Equity Share Mode of Payment: Cash Public Announcement (PA) dated February 22, 2022, Detailed Public Statement (DPS) published on February 24, 2022, Draft Letter of Offer (DLoF) dated March 04, 2022, and Letter of Offer (LoF) dated May 12, 2022 have been issued by Kotak Mahindra Capital Company Limited, the Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer.		
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer: Crompton Greaves Consumer Electricals Limited. PACs: None		
5.	Name of the Manager to the offer	Kotak Mahindra Capital Company Limited 27 BKC, 1st Floor, Plot No.C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051. Tel: +91-22-43360128; Fax: +91-22-67132447 Email: butterfly.openoffer@kotak.com Contact Person: Mr. Ganesh Rane SEBI Registration Number: INM000008704		
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Mr. T. R. Srinivasan - Chairman Mr. M. Padmanabhan - Member Mr. A. Balasubramanian - Member Mr. G. S. Samuel - Member Mrs. Maheshwari Mohan - Member		
7-	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	The members of the IDC are independent directors on the Board of Directors of the Target Company. None of them holds any shares in the Target Company. Except as mentioned below, none of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company: Below are the details of committee positions of the IDC members: a. Mr. T. R. Srinivasan - A member of Corporate Social Responsibility Committee and Stakeholders Relationship Committee. b. Mr. M. Padmanabhan - A member of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee and Stakeholders Relationship Committee. c. Mr. A. Balasubramanian - A member of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Committee d. Mr. G. S. Samuel - A member of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Committee and Corporate Social Responsibility Committee e. Mrs. Maheshwari Mohan - A member of Corporate Social Responsibility Committee		
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Target Company during the: (a) 12 months period preceding the date of PA; and (b) period from the date of the PA and till the date of this recommendation.		
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	(a) are directors on the boards of the Acquirer.		
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	UKU 100 NEW YARAN YARANA		
11.	Recommendation on the Open offer,	The IDC has perused the LoF dated May 12, 2022 and other documents as		

accordance with SEBI (SAST) Regulations, 2011. Based, inter alia, on the above the IDC is of the opinion that the open offer price of Rs 1433.90/- per Equity Share, offered to the public shareholders of the Target Company is in compliance with the above SEBI (SAST) Regulations, 2011 and is fair and reasonable. The public shareholders of the Target Company are however advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision with regard to tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer or to stay invested. 12. Summary of reasons for The IDC has based its recommendations on the following factors; recommendation a) The price of Rs.1403/- per Equity Share, i.e. the negotiated price as per the share purchase agreement dated February 22, 2022 is the highest of (IDC may also invite attention to any all parameters laid down in Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) other place, e.g. company's website,

released and published by the Acquirer

M/s. R.Bupathy & Co. (FRN: 000525S) Chartered Accountants, have

provided an external advice dated March 25, 2022 that the open offer price

as disclosed in the DLoF dated March 04, 2022, i.e. Rs.1433.90/- per Equity

Share (which is the price as per LoF dated May 12, 2022 also) is fair in

where its detailed recommendations Regulations, 2011. along with written advice of the b) Further, in accordance with Regulation 8(7) of the SEBI (SAST) independent adviser, if any can be Regulations, 2011, the Acquirer has added Rs.30.90/- per Equity Share to seen by the shareholder) the aforesaid negotiated price on account of acquisition of certain trademarks from the outgoing promoters of the Target Company. The aforesaid addition of Rs.30.90/- has been derived on the basis of total considerations for trademark acquisition divided by the total number of

> c) The offer price of Rs.1433.90/- is higher than the highest price of the Target Company's equity shares quoted until the date of the PA i.e. February 22, 2022 in the stock exchanges (NSE - Rs.1400.00/- and BSE - 1398.60/-) d) The payment for the shares being acquired is proposed to be made in

Equity Shares being acquired from the outgoing Promoters.

e) There is no competing offer made till the date of this recommendation.

This statement of recommendation will be available on website of the Company at www.butterflyindia.com The recommendations were unanimously approved by the members of the

Details of independent Advisors, if any M/s. R.Bupathy & Co. Chartered Accountants (FRN: 000525S)

otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Place: Chennai

T.R.Srinivasan Date: May 16, 2022 Committee of Independent Directors

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this

statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or

2002 (कथित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) से उन्हें निर्गत संबंधित मांग सुचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सुचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहाँ नीचे उल्लिखित राशियों का इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार (रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि

के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण निम्नलिखित है :-							
कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूति आस्ति (अचल सम्पत्ति)					
के नाम	एवं राशि	का विवरण					
श्री श्याम सिंह, श्री कृपाल सिंह, श्रीमती ललिता	12-मई-2022, रु. 16,21,979/-	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर -13/1, क्षेत्रफल 55 वर्ग					
देवी, श्याम पैकेजिंग, श्री सुनील कुमार,	(रुपये सोलह लाख इक्कीस हजार	गज, खसरा नं870 राजबाग, गांव-पसौंदा गाजियाबाद, 201005, उत्तर					
(प्रॉस्पेक्ट संख्या 826210)	नौ सौ उन्यासी मात्र)	प्रदेश, भारत					
श्री रिंकू शर्मा, श्री अमित कुमार शर्मा, श्रीमती	12-मई-2022,	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः मकान नंबर 83, माप 111.31 वर्ग					
अनुराधा शर्मा, श्री जॉनी शर्मा, श्रीमती पूनम शर्मा,	₹. 21,22,990.00/-	मीटर, बेक इंद्र कॉलोनी, शाहगंज लोहामंडी, आगरा, 282010, उत्तर					
रीनू शर्मा एंटरप्राइजेज, श्रीमती रेनू ओझा, श्रीमती	(रुपये इक्कीस लाख बाईस हजार	प्रदेश, भारत					
सावित्री बनवारी, श्री बनवारी श्री दयाल,	नौ सौ नब्बे मात्र)						
(प्रॉस्पेक्ट संख्या 828556)							
श्री पुष्पराज द्विवेदी, पंडित जी जनरल स्टोर, श्रीमती	12-मई-2022,	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर -24, माप -122.56					
शिव देवी,	रु. 19,29,170.00/−	वर्ग मीटर, खसरा नंबर -415 गांव रावली महदूद परगना ज्वालापुर					
(प्रॉस्पेक्ट संख्या 853653)	(रुपये उन्नीस लाख उनतीस हजार	तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित नगर निगम क्षेत्र के बाहर हरिद्वार,					
	एक सौ सत्तर मात्र)	रावली महदूद, हरिद्वार, 249402, उत्तराखंड, भारत					
यदि कर्जदार उपर्यक्त के अनुसार आईआईएफएल ए	चएफएल का भगतान करने में असफल	रहते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल कथित अधिनियम की धारा 13(4)					
		तेभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिक विवरण के लिए					
अधिक महिलारी में मार्ग्य के हैं। जान्य कराविता करें में 20/20ई अपन जान्य पत्रे में विवासी मार्ग करावत में बाराम मोर्ग							

अधिकत पाधिकारी से सम्पर्क करें : **शाखा कार्यालय** : प्लॉट सं. 30/30ई. अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगआर शोरूम के पास, मोती नगर, नई दिल्ली/अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालय**: आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। ह./- अधिकत प्राधिकारी, कते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

F muthoot HOUSING FINANCE मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074—7, मुथूट सेंटर, पुन्नेन मार्ग, तिरुवनंतपुरम—695 034 सीआईएन नं.— यू65922केएल2010पीएलसी025624, निगमित कार्यालयः 12/ए 01, 13वां तल, परिनी क्रेसेंजो, भूखंड सं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स-जी ब्लॉक (पूर्व), मुंबई-400051, दूरभाष सं.: 022-62728517 ईमेल आईडी: authorised.officer@muthoot.com

परिशिष्ट—IV (नियम 8(1)) आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 की अधिनियम संख्या 54) के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धार 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता/ओं/गारंटर/रों को एक मांग सूचना निर्गत की थी। उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत, उधारकर्ता / गण / गारंटर / गण राषि का प्रतिभूगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता / ओं / गारंटर / रो को तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त षिन्तयों के प्रयोगान्तर्गत, निम्नानुसार तिथियों पर, प्रतीकात्मक आधिपत्य ग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	/गारंटर का नाम	की तिथि	कुल बकाया राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) / अचल संपत्ति(यों) का विवरण	आधिपत्य की तिथि
1.	एलएएन न. 15100074549 निसार अहमद शमा परवीन		रु. 12,99,949.49/— 09 जुलाई 2021 के अनुसार	भारत	13 मई 2022
2.	एलएएन नं. 15600074256 सुहेल खान सितारा	12 नवंबर 2021	रु. 5,93,319.50 / — 12 नवंबर 2021 के अनुसार	मेरठ, 250002, भारत	13 मई 2022
3.	एलएएन नं. 15600078919 जयवीर नत्थू सचिन कुमार जयवीर	10 दिसंबर 2021	रु. 13,48,122.84 / – 30 नवंबर 2021 के अनुसार		13 मई 2022

का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह ऊपर अंकित मांगी गई एक राशि तथा इस राशि पर भावी ब्याज हेत् मैसर्स मुथ्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपर्न लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थानः उत्तर प्रदेश, दिनांकः 17.05.2022 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

C Piramal Capital & Housing Finance

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) CIN: L65910MH1984PLC032639

पंजीकत कार्यालय: यनिट नंबर -601, 6वीं मंजिल पीरामल अमिती बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070-टी 91 22 38024000 शाखा कार्यालयः पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीसीएचएफएल (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) ए-301 और 302. तीसरी मंजिल. एलांते

ऑफिस कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़-160002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8-(1) और परिशिष्ट-IV

के अनुसार अचल संपत्ति के लिए कब्जा-सूचना जबिक, अधोहस्ताक्षरी पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अधिकृत

अधिकारी होने के नाते वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम 2002 के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित ऋणीध्यारंटर को जारी की गई मांग नोटिस (सूचनाओं) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए उक्त नोटिस जारी किया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणीध्यारंटर(ओं) और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लेखित राशि. उस पर ब्याज सहित देय राशि

क्र. ऋणी/गारंटर का नाम सं.		सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना दिनांक और राशि	कब्जे की तिथि	
1.	(ऋण कोड संख्या–00007384), (देहरादून–शाखा), राजीव कुमार शर्मा (उधारकर्ता) / आशा शर्मा (सह–उधारकर्ता)	खसरा नं 40 खा धोरान खास परगना परवादून, देहरादून देहरादून—248001	रुपये 10,86,299/- (रुपये दस लाख छियासी हजार दो सौ निन्यानवे) के लिए 23–04–2019	12-05-2022	
2.	ऋण कोड संख्या—00005692) (देहरादून—शाखा), आशीष कुमार (उधारकर्ता) / मोनिका रेखी (सह—उधारकर्ता)	खसरा नंबर 577 मिन खाता नंबर 177 मौजा शेरपुर, परगना पचवाड़न, तहसील विकासनगर, देहरादून, देहरादून–248001		11-05-2022	
3.	(ऋण कोंड संख्या 00004923), (देहरादून – सोहना रोड–शाखा), कुलदीप सिंह (उधारकर्ता) / डिंपल सिंह (सह उधारकर्ता)	मौजा एतानबाग ,परगना पछवादून, विकासनगर देहरादून, देहरादून ,उत्तरांचल :— 248001 में स्थित खसरा नंबर 3182		11-05-2022	
4.	(ऋण कोड संख्या–00006007), (देहरादून–शाखा), मनोज एम (उधारकर्ता) / शीला एस (सह–उधारकर्ता)	मौजा मेहुवाला, कलसा तहसील विकासनगर परगना पछवा दून, देहरादून, देहरादून,उत्तरांचल :— 248001 में स्थित खसरा नं 133 मिन		11-05-2022	
5.	(ऋण कोड संख्या 00005881), (देहरादून–शाखा), दीपक डी (उधारकर्ता) / नीलम एन (सह–उधारकर्ता)	खसरा नं 2 मौजा अर्कांडिया ग्रांट , परगना पचवाड़न, देहरादून, देहरादून देहरादून उत्तरांचल :– 248001	पचहत्तर हजार चार सौ बीस मात्र) के लिए 20–07–2021	11-05-2022	
6.	(ऋण कोंड संख्या 00000701), (देहरादून–शाखा), खुशी राम (उधारकर्ता) / (घनश्याम नौटियाल (सह–उधारकर्ता)	खाता नंबर 221, के. नंबर 243 और 241 ,मौजा हरबंशवाला, इंद्र एन्क्लेव परगना केंद्रीयदून देहरादून, देहरादून, उत्तरांचलः — 248001	चार सौ चार रुपये मात्र) के लिए	13052022	
7.	(ऋण कोड संख्या–00008890), (देहरादून–शाखा), शंकर सिंह चौहान (उधारकर्ता) / रेणु चौहान (सह–उधारकर्ता)	म्युनिसिपल संख्या 30 एमडीडीए कॉलोनी ,मोहिनी रोड मोहिनी रोड, डालनवाला देहरादून, देहरादून, देहरादून, उत्तरांचलः —248001		13-05-2022	
8.	(ऋण कोड संख्या–00000640), (हरिद्वार शाखा), अनिल राठी (उधारकर्ता) / रेखा राठी (सह–उधारकर्ता)	शांति मगरग, गांव— हरिपुर कलां, परगना— परवादून, देहरादून, देहरादून उत्तरांचल :— 249205 में स्थित एच. तल नं. 1 खाता खतौनी नं. 1385	हजार आठ सौ उन्तालीस रुपये मात्र) के	11-05-2022	
9.	(ऋण कोड संख्या 00001813), (हरिद्वार–शाखा), अमित कुमार जैन (उधारकर्ता) / सुमित कुमार जैन (सह–उधारकर्ता)	गांव बमोरी तल्ली बंदोबस्ती, तहसील हल्द्वानी,जिला —मैनीताल, मैनीताल मैनीताल जैनीताल उत्तरांचल :— 263139		14-05-2022	
10.	(ऋण कोड संख्या 00002331), (हरिद्वार–शाखा), फय्याज (उधारकर्ता) / बानो (सह–उधारकर्ता)	प्लॉट नंबर बी—9, खसरा नंबर 1500, गायत्री विहार कॉलोनी, गांव— ज्वालापुर, परगना— ज्वालापुर, हरिद्वार,हरिद्वार उत्तरांचलः 249407		11-05-2022	

RateGain®

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड (पूर्व में रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) सीआईएनः L72900DL2012PLC244966

पंजीकृत कार्यालयः एम–140, ग्रेटर कैलाश पार्ट–।। नई दिल्ली 110048, भारत 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लेखापरीक्षित

समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(रु. मिलियन में, अंश आंकडा छोडकर और यदि अन्यथा उल्लेखित)

_		त तिमाही		समाप्त वर्ष		
	विवरण	31 मार्च 2022	31 दिसंबर 2021	31 मार्च 2021		
		(नोट 5 का संदर्भ लें)		(नोट 5 का संदर्भ लें)	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	कुल आय	1139.87	1006.98	785.07	3831.13	2640.91
2.	परिचालनों से आय	1078.77	990.09	716.29	3665.91	2507.93
3.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	123.88	13.24	(29.59)	117.8	(246.28)
4.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	123.5	4.19	(29.59)	108.37	(246.28)
5.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	116.1	0.85	(58.35)	84.19	(285.75)
6.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	112.61	(14.96)	(51.72)	66.68	(278.95)
7.	समता अंश पूंजी				107.31	6.55
8.	पूर्ववर्ती वर्ष के अनुसार अन्य समताएं	-	- 1	_	6084.22	2441.18
9.	मूल एवं तरलीकृत आय प्रति अंश (आईएनआर 1 प्रत्येक का अंकित मूल्य) (आईएनआर में)					
1	मूल ईपीएस	1.08	0.01	(0.63)	0.84	(3.09)
	तरलीकृत ईपीएस	1.07	0.01	(0.63)	0.83	(3.09)

1. दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तृति लेखा-परीक्षक समिति द्वारा की गई थी और बाद में निदेशक मंडल ने 16 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इनका अनमोदन किया गया। संवैधानिक लेखा–परीक्षकों ने इन

परिणामों पर एक असंशोधित लेखापरीक्षण राय प्रकट की है। 2.अंश सूचीकरण व्ययों के कारण दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही की आपवादिक मद रु. 0.38 मिलियन (31 दिसंबर 2021: रु. 9.05 मिलियन)

है तथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की रु. 9.43 मिलियन है। 3.उपरोक्त जानकारी जो है वह सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों

के पास कंपनी द्वारा फाइलबद्ध लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com ,oa www.nseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.rategain.com पर भी उपलब्ध है। 4.दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतू कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सरांश नीचे दिया गया है:

(रु. मिलियन में, अंश आंकडा छोडकर और यदि अन्यथा उल्लेखित)

		Anira ianigi			VIII 44		
	विवरण	31 मार्च 2022	31 दिसंबर 2021	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	
		(नोट 5 का संदर्भ लें	अलेखापरीक्षित	(नोट 5 का संदर्भ लें	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
कुल	न आय	271.34	258.51	225	1036.41	846.63	
परि	रेचालनों से आय	189.51	188.02	175.69	727.44	678.93	
क	र पूर्व निवल लाभ	11.21	(5.13)	13.84	28.66	63.52	
कर	र उपरांत निवल लाभ	7.33	(4.41)	5.41	18.1	41.02	
5.दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े जो हैं वे पूर्ण वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा चालू वित्तीय वर्ष की तृतीय तिमाही की समाप्ति							
तक अ	लेखापरीक्षित वर्ष-पति–वर्ष आंकडों के मध्य पविष्ट संतलनकारक आंक	दे हैं जो कि संवैध	ानिक लेखापरीक्ष	कों दारा एक सी	मित समीक्षा किए	्ताने के अधीन	

थे। उपरोक्त विवरण में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के वे आंकड़े सम्मिलित हैं जिन्हें आईएनडी एएस के अनुरूप प्रबंधन द्वारा संकलित जानकारी के आधार पर प्रस्तत किया गया है. जो कि संवैधानिक लेखा–परीक्षकों द्वारा एक लेखापरीक्षण अथवा समीक्षा किए जाने के अधीन नहीं हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं उसकी ओर से रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड भान चोपडा (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

स्थानः दिल्ली

दिनांक: 16 मई 2022

Chairman,

www.readwhere.com 🔵 🔵 🔵

13. Disclosure of the Voting Pattern

reasonable